

BHG - C - 311
BA SEMESTER III
EXAMINATION- 2021

विषय:- आधुनिक भारतीय भाषा हिन्दी

समय :3 घण्टे

पूर्णांक: 70

नोट: प्रश्नपत्र दो खण्डों 'अ' एवं 'ब' में विभाजित है। प्रत्येक खण्ड से निर्देशानुसार उत्तर दीजिए।

खण्ड – अ (लिघु उत्तरीय प्रश्न)

नोट : किन्ही पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 150 शब्दों में देना होगा। प्रत्येक प्रश्न 6 अंक का है।

(5x6=30)

1. तुलसीदास की भक्ति भावना स्पष्ट कीजिए।
2. कबीरदास समाज सुधारक एवं सच्चे साधक थे स्पष्ट कीजिए।
3. 'बालिका का परिचय' कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखिए।
4. निराला के काव्य सौंदर्य की विवेचना करें।
5. भूषण की वीर भावना स्पष्ट कीजिए।
6. सुभद्रा कुमारी चौहान का साहित्यिक परिचय दीजिए।
7. 'वर दे, वीणावादिनि वर दे' कविता का प्रतिपाद्य लिखिए।
8. भक्तिकाल की विभिन्न परिस्थितियों का संक्षिप्त में परिचय दीजिए।
9. आदिकाल की सामान्य प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए।
10. हिन्दी भाषा का उद्भव और विकास का संक्षिप्त परिचय दीजिए।

खण्ड – ब (दीर्घ उत्तरीय प्रश्न)

नोट: किन्ही चार प्रश्नों के उत्तर विस्तृत रूप में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का है।

[4x10 = 40]

1. आदिकाल के नामकरण की समस्या पर प्रकाश डालें।
2. आधुनिक भारतीय भाषाओं के विकास का सामान्य परिचय दीजिए।
3. 'बिहारी ने सतसई में गागर में सागर भरा है।' प्रस्तुत कथन को सोदाहरण स्पष्ट कीजिये।
4. भूषण की राष्ट्रीय भावना का वर्णन लीजिए।

(व्याख्यात्मक प्रश्न)

नोट : प्रसंग सन्दर्भ सहित व्याख्या कीजिए।

5. कनक कनक तैं सौगुनौ मादकता अधिकाइ ।
उहिं खाएं बौराइ इहिं पाएँ ही बौराइ ॥
6. साजि चतुरंग सैन अंग मैं उमंग धारि,
सरजा सिवाजी जंग जीतन चलत है।
भूषण भनत नाद - बीहद नगारन के,
नदीनंद मद गैबरन के रलत है।
ऐल फैल खेल भैल खलक में गैल,
गैल गजन की ठैल पैल सैल उसलत है।
तारा सो तरनि धूरिधारा में लागत जिमि,
थारा पर पारा पारावारा यौं
7. कह दे अतीत अब मौन त्याग
लंके तुझमें क्यों लगी आग
ऐ कुरुक्षेत्र अब जाग जाग,
बतला अपने अनुभव अनंत
वीरो का कैसा हो वसंत
8. मंदिरा की वह नदी बहती आती,
थके हुए जीवों को वह सस्नेह प्याला एक पिलाती,
सुलाती उन्हें अंक पर अपने,
दिखलाती फिर विस्मृति के वह अगणित मीठे सपने,

अर्धरात्रि की निश्चलता में हो जाती जब लीन,
कवि का बढ़ जाता अनुराग,
विराहाकुल कमनीय कंठ से
आप निकल पड़ता तब एक विहाग।